

परिशिष्ट सारणी V.11: राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रमुख वित्तीय संकेतक-राज्य-वार
(मार्च के अंत में)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र / राज्य/ यूटी	शाखाएं	लाभ/ हानि		ऋण की तुलना में एनपीए अनुपात (%)		वसूली अनुपात (%)* (जून अंत में)	
		2023	2022	2023 ^{पी}	2022	2023 ^{पी}	2021	2022 ^{पी}
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तरी क्षेत्र	104	-5,825	16,336	57.2	62.9	18.5	22.4
1	हरियाणा @	0	-4,873	-2,057	77.6	76.6	11.6	11.6
2	हिमाचल प्रदेश #	51	185	-165	42.7	38.0	42.6	41.0
3	जम्मू और कश्मीर*	51	-2,283	-1,790	49.4	55.0	30.7	32.4
4	पंजाब @	0	273	19,680	45.3	62.0	25.7	42.2
5	राजस्थान @	2	873	669	53.8	55.6	18.2	16.7
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	5	-38	16	99.5	98.3	8.8	29.8
6	असम*	-	-	-	-	-	-	-
7	त्रिपुरा*	5	-38	16	99.5	98.3	8.8	29.8
	पूर्वी क्षेत्र	11	615	700	24.5	24.7	33.9	34.7
8	बिहार*	-	-	-	-	-	-	-
9	ओडिशा@	-	-	-	-	-	-	-
10	पश्चिम बंगाल #	11	615	700	24.5	24.7	33.9	34.7
	मध्य क्षेत्र	323	491	9,808	80.2	81.9	29.1	29.1
11	छत्तीसगढ़@	-	-	-	-	-	-	-
12	मध्य प्रदेश@	-	-	-	-	-	-	-
13	उत्तर प्रदेश*	323	491	9,808	80.2	81.9	29.1	29.1
	पश्चिमी क्षेत्र	176	3,331	6,006	58.5	44.1	9.0	14.4
14	गुजरात*	176	3,331	6,006	58.5	44.1	9.0	14.4
15	महाराष्ट्र@	-	-	-	-	-	-	-
	दक्षिणी क्षेत्र	73	9,892	7,936	15.9	14.1	71.0	73.9
16	कर्नाटक@	25	2,930	4	33.0	38.7	32.2	32.0
17	केरल @	16	2,930	3,447	11.1	8.3	84.0	86.5
18	पुदुचेरी*	1	15	22	8.1	8.8	89.5	91.2
19	तमिलनाडु@	31	4,018	4,464	22.0	11.6	79.9	88.6
	अखिल भारत	692	8,466	40,803	36.1	36.5	40.8	42.8

@: संघीय संरचना

#: मिश्रित संरचना

*: एकल संरचना

:- लागू नहीं

टिप्पणियां:

1. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ सटीक कुल से भिन्न हो सकता है।
2. छत्तीसगढ़ में 2014-15 के दौरान अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना का दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना के साथ विलय कर दिया गया। साथ ही असम, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एससीएआरडीबी अब कार्यशील नहीं हैं।
3. वित्तीय वर्ष के लिए वसूली 30 जून तक है।
4. पी – अनंतिम।

स्रोत: नाबार्ड।